

viṣwabōḍa m. un saint buddhiste.
viṣwabēśaja n. gingembre sec.
viṣwabāñjas m. (*buñ*) homme qui jouit de tout.

viṣvamadā f. une des 7 langues d'Agni.
viṣvamārtimal a. qui prend toutes les formes, qui existe dans toutes les formes, dans tous les corps, Vishnu.

viṣvambāra m. (*ḅr*) Vishnu; Indra. — F. la terre.

viṣvayu m. (*yā*) air, vent.
viṣvarāj m. (nom. *rāḷ*) le maître universel.

viṣvarūpa a. qui prend toutes les formes, qui a une forme universelle. — S. m. Vishnu. — S. n. agallochum, bot.

viṣvarētas m. Brahmā.

viṣvarīcana m. arum colocasia.

viṣvavāra a. (c. de *vṛ*) pourvu de tout, Vd. — S. f. l'Aurore, Vd.

viṣvavēdas m. (*vid*) un homme qui sait tout, un sage, un saint.

viṣvasahā f. (*sah*) nom d'une des 7 langues d'Agni.

viṣvasāraka n. (*sāra*) costus indicus.

viṣvasṛj m. (*sṛj*) Brahmā, producteur du monde.

viṣvācī f. np. d'une Apsaras.

viṣvātman m. (*ātman*) Vishnu; Brahmā. — N. l'âme du monde.

viṣvādāyās m. (*dā*; *dā*; sfx. *as*) un dieu.

viṣvāmītra m. np. d'un poète védique, fils de Gādhi, xattriya, puis Muni et rival de Vasishtha.

viṣvāmītrapriya m. cocotier.

viṣvāvāsū m. Vd. le Gandharva Viṣvāvāsū ou Agni. — Nom d'une nuit.

viṣvēca m. et *viṣvēcvara* m. (*iç*) seigneur de toutes choses. || Çiva.

विश्वयामि *viṣvayāmi* (*çvi*) apparaître : *prāṭamōṣā vyaçvēt* la première aurore est apparue, Vd.

विश्वसिमि *viṣvasimi* (*çvas*) m à m. respirer c. à d. se confier en qqn., l. ou g. || Respirer, être en sécurité. || Pp. *viṣvasita* et *viṣvasita*, qui se confie; || f. *viṣvastā* veuve.

viṣvāsa m. confiance.

viṣvāsāyāmi (c. de *çvas*) rendre confiant, rassurer; || consoler.

* **विष् vis.** *vēśāmi* 1; p. *vivēśa*; f1.

vēśāsmi; f2. *vēxyāmi*; gér. *vēśitvā* et *viṣṭvā*. Verser, répandre; cf. *vṛś*.

* **विष् vis.** *vēvēsmi*, *vēvēśi* 3; etc. Se rendre à, venir à : *lad vividdi* viens à ce sacrifice, Vd. || En venir aux mains, combattre, *indrēna* avec Indra, Vd. || Venir manger; *yavam* l'orge [du Sacrifice], Vd. || Accomplir, exécuter.

* **विष् vis.** *viṣṇāmi* 9; etc. Séparer; désunir. || Pp. *viṣṭa*.

विष् vis f. action de répandre || Excréments, ordure.

विष् visā m. n. (*viṣ* 1) poison, venin. — N. eau. || Myrrhe. || Sorte de poison. || Filaments du lotus. — F. *viṣā* esp. d'arbre à écorce tinctoriale. || Lat. virus.

viṣagā f. (*han*) menispermum cordifolium, bot.

viṣagālin m. (*han*) mimosa sirisha.

viṣagna a. (*han*) qui détruit l'effet du poison. — S. m. mimosa sirisha; hedysarum alhagi; terminalia belerica; bot. — S. f. [*ḷ*] hingtsha repens; curcuma longa; coloquinte; etc.

viṣaṇi m. esp. de serpent.

viṣaṇḍa n. filaments du lotus.

viṣadu n. (*dā*) vitriol vert [ou ? bleu].

viṣadantaka m. (*danta*) serpent.

viṣadaṛṇanamṛtyuka m. esp. de faisán.

viṣadaśśrā f. esp. de plante.

viṣādāra m. (*āṛ*) serpent.

viṣādārmā f. carpopogon pruriens.

viṣānācana m. (c. de *naç*) mimosa sirisha, bot.

viṣānud m. bignonia indica, bot.

viṣāpuṣpa m. vangueria spinosa, bot. — N. lotus bleu.

viṣāpuṣpaka m. empoisonnement par des fleurs vénéneuses.

viṣābiṣad m. vendeur d'antidotes.

viṣābujaṅga m. serpent vénimeux.

viṣāmantra m. dompteur de serpents, vendeur d'antidotes

viṣāmuṣṭi f. esp. d'arbuste.

viṣāṃṭiyu m. esp. de faisán.

viṣāla m. poison, venin.

viṣavidyā f. la science des antidotes.

viṣāvēga m. l'empoisonnement et son effet.

viṣāvēdyā m. (*vidyā*) vendeur d'antidotes.

viṣācūka m. guépe.

viṣāçṛṅgin m. guépe.

viṣāśūcaka m. perdrix rouge.

viṣāçṛkhan m. guépe.

viṣāhara a. (*hṛ*) qui détruit l'effet du poison. — S. f. np. de la déesse des serpents, sœur de Vāsuki.

viṣāyūka m. dart, lance.

viṣānana m. (*ānana*) serpent.

viṣāntaka m. (*anta* au c.) Çiva.

viṣāpahā f. (*apa*; *hā*) aristolochia indica, bot.

viṣāyūda m. (*āyūda*) serpent.

viṣāra m. (sfx. *āra*) serpent.

viṣāya m. (*āya*) serpent. — F. anacardium semecarpus, bot.

विषंतामि *viṣāyāmi* (*sañj*) attacher, suspendre.

विषय *viṣayā* (pp. de *viṣidāmi*) affaîssé, abattu. au fig.
viṣānpatā f. abattement, affaîssement moral.

विषत्व *viṣatwara* m. buffle.

विषम *viṣama* a. (*sama*) inégal, rugueux, raboteux; || non parallèle; impair. || Au fig. d'un accès difficile; || difficile à comprendre; || en gén. difficile, malaisé, pénible. — S. n. inégalité d'un terrain; || Imparité d'un nombre; || difficulté, peine.

viṣamaçāda m. echites scholaris.

viṣāmanayana m. Çiva [qui a 3 yeux].

viṣāmamāya a. d'une nature inégale, provenant de l'inégalité, de l'imparité.

viṣāmarūpya a. (*rūpa*) mms.

viṣāmaribāga m. partage inégal [par exemple des héritiers].

viṣāmasta a. (*stā*) inégal, non nivelé.

viṣāmāva m. (*ava*) Çiva, qui a 3 yeux.

viṣāmāyūda m. (*āyūda*) Kāma, qui a 5 flèches.

viṣāmiya a. provenant de l'inégalité.

विषय *viṣaya* m. (*si*; sfx. *a*) objet sensible, tout objet de la perception extérieure. || L'objet propre, l'occupation spéciale de qqn. || le milieu où se meut qqn. ou qqc., le lieu où existe naturellement qqn. ou qqc.; || ville, province, contrée; la terre; || observance pieuse. || Mari, amant. || Semence virile.

viṣāyāyin m. (*aya*, de *i*, sfx. *in*) organe des sens. || Homme livré aux affections sensuelles; || philosophe sensualiste. || Kāma. || Roi.

viṣāyin a. (sfx. *in*) attaché aux objets des sens, sensuel, mondain. — S. m. philosophe sensualiste. || Kāma. || Roi. — S. n. *viṣāyi* organe des sens.

विषसाद् *viṣasāda* p. de *viṣidāmi*.

विषहे *viṣahē* (*sah*) supporter, *uṣṇam* ça *çitam* ça et le chaud et le froid. || Résister, soutenir le choc, pouvoir vaincre, ac.

विषा *viṣā* [indéc.] intelligence.

विषाण *viṣāṇa* m. n. et *viṣāni* f. corne d'animal. || Défense d'éléphant, de sanglier, etc. — F. esp. de plante. — N. costus speciosus, bot.

viṣānakōśa m. cavité de la corne.

viṣānin m. bête à cornes, en gén. || Tau-reau. || Eléphant.

विषाद् *viṣāda* m. (*sad*) affaîssement; lassitude; consternation; épouvante.

viṣādāyāmi (c. de *sad*) faire que qqn. s'affaîsse sur lui-même, *bayāt* de peur, *çōkāt* de chagrin.

viṣādīn a. (sfx. *in*) enclin à s'affaîsser; paresseux, mou, nonchalant; || Qqf. effrayé.

विषीदामि *viṣidāmi* (*sad*) s'affaîsser [au propre et au fig.].

विषीव्यामि *viṣivāmi* (*stv*) coudre.

विष्णु *viṣṇu* adv. beaucoup; || également.

viṣṇuṇa a. (sfx. *na*) qui a une égale étendue, un mouvement uniforme.

viṣṇupa, *viṣṇuva*, *viṣṇuval*, n. équinoxe.

विषेवे *viṣēvē* (*sev*) honorer, servir.

* **विष्क** *viṣk*. *viṣkayāmi* 10. Voir.

विष्कन्दामि *viṣkandāmi*, cf. *viskandāmi*.

विष्कन्मोमि *viṣkañmīmi*, *viṣkañnāmi* et *viṣkambē* (*skamb*) étanchonner, consolider, Vd. || Se dégager, échapper.

viṣkambā m. barre d'une porte; || obstacle, empêchement. || Qqf. dégagement, développement. extension. || Personnage bouffon qui remplit les entractes au théâtre. || Posture propre aux yōgis. || Le 1^{er} des 27 yōgas astronomiques. || Arbre.
viṣkambīn n. barre de porte.

विष्किर *viṣkīra* m. oiseau, en gén.

विष्ट *viṣṭa* pp. de *viç* et de *viṣ*. — S. f. excrément, ordure.

विष्टप *viṣṭapa* m. n. cf. *piṣṭapa* et *viṣṭāpa*.

विष्टम *viṣṭāma* n. (*stamb*) le monde, l'univers; portion de l'univers.

विष्टम् *viṣṭambā* m. (*stamb*) arrêt, obstacle qui arrête. || Constipation, dysurie.

viṣṭambayāmi (c. de *stamb*) rendre immobile de stupeur, d'étonnement.

विष्टर *viṣṭara* m. (*stf*) couche de gazon; siège sacré formé de 25 brins de kuça liés en gerbe; || en gén. siège, chaise, couche. || Qqf. arbre.

viṣṭaragravas (*çru*) Vishnu; Krishna.

viṣṭāra m. (*stf*) sorte de pankti ou stance composé de 4 vers de 8, de 12, de 12 et de 8 syllabes respectivement.

विष्टि *viṣṭi* m. f. (*vic*; sfx. *ti*) ouvrier. — F. ouvrage non payé; || ouvrage, travail, occupation, en gén. || Salaire. || Envyā, *viṣṭat* d'envoyer; || condamnation, damnation. || Le 7^e *kāraṇa* ou période astronomique.

विष्टल *viṣṭala* n. (*stāla*) lieu retiré, place à part.

